



Útvegi [-V@^ Úíá[í^ Š^æí}í} * Vi~•cē æ &@æíææá^ &[{]æ)^ íí {æ^á à^ *~æíæ}c^ ^!^*c^!^á í} Ò)*]æ}á B Yæ!^•
æ@ &[{]æ)^ * {à^! €ííJíí€íí
Ú^*í•c^!^á [-í&^ æáá!^••k Úíá[í^ Ó[{ ~}æ^ U&@[[íÉ Ú^!^}•, æ^É Y^•c[}É•~]!^ÉTæ!^É Þ[í@ Ú[{ ^!•^cÉ ÓÚGG ÍÓÚ

Tæ^ G€Fï

F

R~ }^ G€Fì

G

Œáá^á P^æá^æ&@^! æ•
^||æ• Ú!â}&â]æ|É
Œæ} *^á

Öæc^ Ú[ã&^ Œã[]c^ã	Ö^&^ { à^! G€GH
Û^çã^ , &^& ^	Œ} } ~æ
Û^çã^ , áæc^	Û^]c^ { à^! G€GI

FÈ Œã { •ÈÈ I
 GÈ Ûcæ}áæ!á• [- à^@æçã[~!ÈÈ I
 HÈ Û^&[* }ãcã[]È Í
 IÈ Œ}cãÈà~||^ã} * Í
 ÍÈ Ú[•ãcãç^ @æ}ã|ã} *ÈÈÈ Í
 ÎÈ Ö!~*•È Î
 ÏÈ Û^æ!&@ã} *] ~]ã!•ÈÈ Î
 ÌÈ Ú ~]ã| !^•c!æã}cÈÈÈ Î
 JÈ Ú[|ã&^ Û^çã^ ,ÈÈÈ Ì

Úæ!c [- V@^ Ú!ã[!^ Š^æ!}ã} * V!~•cÈ æ &@æ!æã!^ &[{]æ)^ |ã { æ^ã à^ * ~ æ!æ}c^^ !^*ã!^ã ã} Ò} *]æ}á B Yæ!^•
 Û^*ã!^ã [-ã&^ æã!^ã•K Ú!ã[!^ Ó[{ ~ }ã^ U&@[[È Û^ã^]•, æ^È Y^•c[]È•~]!ÉTæ!^È Þ[!c@ Û[{ !^!•æÈ ÓÜGG ÍÓÚ



Üc~á^}c• , á|| à^@æç^É æc æ|| cá { ^•É á} æ
[c@^!• æ}á !^•)^&c ~[!|æ!}á}* à@c@ á)
&[{ ~}âc^É

œc V@^ Ú!á[!^ Š^æ!}á}* V!~c çVÚŠVD
@æç^ c@^ [] [!c~}âcá^• c[|æ!}É Y
]!{ ^æcá}* ^ç^!^ æ•]^&c [- •&@[[[]
][c^}cáæÉ Úæ!^}c• æ}á &æ!^!• @æç^ á
æ!^ á} c@^ &[!^!&c ~}á-!{ { æ}á @
•~&&^••~| , ác@ c@^!| |æ!}á}*É V@á•
c[|æ!}á}* æ• , ^|| æ• @á* @ •cæ}áæ!á

œ|| •cæ~• ^^\ c[{æ}æ^ à^@æçá[~!
c@æc ^}&[~|æ^* •c^á^}c• c[&@[[^• c

Y^]!á^ [~!•^ç^• [] |^&[*]á•á}* •c
]æ•c[!æ [! ^ç!æ&~!|á~|æ!É P[, ^ç^!É á
•æ}&cá[]• , á|| à^ æ]]!á^á Ú^^ Ú&@[[[] c

V@á• []!á&^ á••~][!c^á à^ c@^ Ú&@[[[]

œ|| •cæ~É ç[]~}c^!^• æ}á æ^ []^ ^!• ^
]![-^••á[]æ||^É { [á^!|á}* *[[á à^@æçá

Ō[[á à^@æçá[~! , á|| à^ æ&\] [, |á^*^á
•æ}&cá[]• &^æ! c[æ|| æ}á æ]]!á^ &[]•
áá•&!á { á}æcá[] cæ\á}* á}c[æ&&[~}c UŌH
æ}á &@æ||^}*^• c@æc •[{ ^ ç~|}^!æ!^]

Ú~]á!• æ!^ æ { ææ••æá[!• ~[! c@^!• &@[[[] æ}á æ!^ ^ç)^&c^á c[•@ [, !^•] &c c[[] ^ æ}[c@^!É c[
•&@[[[] •cæ~ æ}á æ^ []^ ^!• ^ c@^ { ^^c à[c@ á} æ}á [~c [- @[[[]

œ|| •cæ~É ç[]~}c^!^• æ}á æ^ []^ ^!• ^
]![-^••á[]æ||^É { [á^!|á}* *[[á à^@æçá

PH @X,Loe. ,Sc. H 2W

Þ[]^ á^•^!ç^• c[à^ à~||á^áÈ VÚŠV cæ\^• à~||^á} * •^!á[~•|^È Òç^!^ !^][!c^á á}&áá^}c [-
à~||^á} * ,á|| à^ ~[||[,^á ~] æ}á æ] !:[]!áæc^ æ&cá[] ,á|| à^ cæ\^}È Ûc~á^}c• æ}á]æ!^}c• &æ}
æ!•[!^][!c á}&áá^}c• [- à~||^á} *È ^ác@^! æ• æ çá&cá { [! ,ác}^••È

V@á•][!á&^ •@[~!á à^ !^æá á} &[]b~ }&cá[] ,ác@ VÚŠV Ó^@æçá[~!È Ûæ-^*~æ!áá} * B Ô@á|á
Ú:[c^&cá[] Ú[!á&á^• æ}á W•á}* V^æ { V^æ&@ È Ú[•ácáç^ Pæ}á|á} * Ú[!á&^È Qc á^cæá!• @[, ,^ ,á||
á {]|^ { ^}c *~ááæ}&^]!:[çáá^á à^ Ö-ÒÈ V^æ { V^æ&@ æ}á [c@^! !^!^çæ}c æáçá&^È

V@^ c^! { ±][•ácáç^ @æ}á|á} *

Üä\ {æ}æ*^{^}c ä • |^*æ|á^á æ • æ } ä }c^*|æ|]æ|c [- à^@æçä[~| {æ}æ*^{^}c]|æ}}ä } *É CE||
•c~á^}c • @ [@æç^ à^^} áá^}cá-á^á æ •]|^•^}cá } * æ |á • \É • @ [~|á @æç^ æ Üc~á^}c Óá~&æcá [}
{|æ}^c /i-Ü } ä |]æ • • [|cÉ V@^]|æ } á^cæä | • • c|æc^*á^ • , @ä&@^

